

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 321]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 26 जुलाई 2014—श्रावण 4, शक 1936

गृह (सी-अनुभाग) विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2014

क्र. एफ. 35-44-2014-दो-सी-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, आगामी विधान सभा उपचुनाव 2014 के लिये निर्मांकित अधिकारियों की सेवाएं शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु भारत निर्वाचन आयोग को प्रतिनियुक्ति पर सौंपता है, उन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 28 (ए) के लिये नामांकित अधिकारी माना जावेगा:—

- (1) पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश, भोपाल.
- (2) पुलिस महानिदेशक के अधीनस्थ निर्वाचन कार्य से जुड़े पुलिस मुख्यालय के अधिकारीगण.
- (3) जिला कटनी एवं जिला आगर मालवा के समस्त पुलिस अधिकारी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
डी. पी. गुप्ता, सचिव.